



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

3 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 595 राँची, गुरुवार,

25 जुलाई, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुचार तथा राजभाषा विभाग

-----  
अधिसूचना

05 अप्रैल, 2019

**संख्या- 1/पी०-102/2015 खण्ड का०- 2917--** मुख्य सचिव, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी, भा.प्र.से. (झा:1986) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्य स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

**संख्या- 1/पी०-102/2015 खण्ड का०- 2918--** विकास आयुक्त, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री सुखदेव सिंह, भा.प्र.से. (झा:1987) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, GRDA के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

**संख्या- 1/पी०-102/2015 खण्ड का०- 2919--** अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री के०के० खण्डेलवाल, भा.प्र.से. (झा:1988) (अधिसूचित अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

**संख्या- 1/पी०-102/2015 खण्ड का०- 2920--** प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री एस०के०जी० रहाटे, भा.प्र.से. (झा:1990) (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

**संख्या- 1/पी०-102/2015 खण्ड का०- 2921--** सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्रीमती वंदना दादेल, भा.प्र.से. (झा:1996) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

**संख्या- 1/पी०-102/2015 खण्ड का०- 2922--** उपायुक्त, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री कृपा नन्द झा, भा.प्र.से. (झा:2005) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ क्षेत्रीय निदेशक, जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरुण कुमार सिन्हा,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----